

### **ENVIRO INFRA ENGINEERS LIMITED**

Date: 18th February, 2025

То То

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers Exchange Plaza, C-1, Block G

Dalal Street Bandra Kurla Complex

Mumbai – 400001 Bandra (E), Mumbai – 400 051

Scrip Code: 544290 Scrip Symbol: EIEL

**Sub: Newspaper Advertisement regarding Postal Ballot Notice** 

Dear Sir / Madam,

In terms of the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, attached are copies of the newspaper advertisement published today i.e. 18.02.2025 in:

1. Financial Express - All India Edition in English

2. Jansatta - Delhi Edition in Hindi

relating to the postal ballot notice seeking approval of the Members of the Company as set out in Postal Ballot Notice dated 06.02.2025.

Kindly take the above information on record.

Thanking you,

For Enviro Infra Engineers Limited

(Piyush Jain)
Company Secretary & Compliance Officer
A57000

Encl: a/a

201, 2nd Floor, R.G. Metro Arcade, Sector -11, Rohini, Delhi -110085 Phone: 011-40591549, 47563394 email: ho@eiepl.in, website: www.eiel.in

CIN NO.: L45200DL2009PLC191418

**FINANCIAL EXPRESS** 

## KAIROSOFT

#### KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED (Formerly known as Pankaj Piyush Trade and Investment Limited)

Registered Office: DPT612, F-79& 80, DLF Prime Towers, Okhla Industrial Estate, South Delhi, New Delhi-110020 Tel: +91 9818502247 Email: infopptinvestment@gmail.com Website: www.kairosoft.ai

CIN: L22209DL1982PLC256291

Contact Person: Bhag Chand Sharma, Company Secretary & Compliance Officer FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED ('OUR COMPANY' OR 'THE ISSUER') ONLY

### NOTICE FOR CHANGE IN RIGHT ISSUE PERIOD

This corrigendum ("Corrigendum") should be read with conjunction with the advertisement dated Monday, 17th February, 2025 published in relation to Rights Issue of Kairosoft Al Solutions Limited. The Right's Issue Committee of the Board of Directors of the company at its meeting held on Monday, 17th February, 2025 has considered and approved the modification of the rights issue period starting from Thursday, 20th February, 2025 to Monday, 3rd March, 2025 (both days inclusive). Issue Schedule:

Particulars	Day and Date
Last Date for credit of Rights Entitlement	Friday, 14th February, 2025
Issue Opening Date	Thursday, 20th February, 2025
Last Date for On Market Renunciation of the Right Entitlement*	Tuesday, 25th February, 2025
Issue of Closing Date**	Monday, 3rd March, 2025
Finalization of Basis of allotment (on and about)	Wednesday, 12th March, 2025
Date of Allotment (on and about)	Tuesday, 18th March, 2025
Date of Credit Rights Entitlement (on and about)	Tuesday, 11th February, 2025
Date of Listing and Trading (on and about)	Wednesday, 26th March, 2025
*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure	that renunciation through off-marke

transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlement are credited to the demat account of the Renounces on or prior the Issue Closing Date \*\* Our Board or the Rights Issue Committees will have the right to extend the Issue Pernod as it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date) or such other time as maybe permitted as per applicable law. Further, no withdrawal of application shall be permitted by any applicant after

The letter of offer dated 05th February, 2025 and the advertisement dated Monday, 17th February, 2025 shall be read in conjunction with this Corrigendum and stands suitably modified to the extent of the information set out above.

> For On Behalf of the Board of Directors KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED

Mr. Sagar Khurana Date: February 18, 2025 Place: Delhi **Managing Director** 

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR KAGAZ PRINT-N-PACK INDIA PRIVATE

CIN: U74899DL1994PTC057191

LIMITED OPERATING IN PACKAGING MATERIALS AND PRINTING WORKS (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) **RELEVANT PARTICULARS** 1. Name of the corporate debtor along KAGAZ PRINT-N-PACK INDIA PRIVATE LIMITED

with PAN/CIN/LLP No.

-		PAN: AAACK1048B
2.	Address of the registered office	Registered Office: D-18, 1st Floor Saraswati Garden, New Delhi -110015
3.	URL of website	The company is not having its own website.
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	The company is engaged in packaging Materials and Printing Works and the project is located at: D-18, 1st Floor Saraswati Garden, New Delhi-110015
5.	Installed capacity of main products/ services	Nil
6.	Quantity and value of main products/	AP1

services sold in last financial year 7. Number of employees/ workmen 8. Further details including last available financial Can be sought by sending a request to statements (with schedules) of two years, lists the Resolution Professional at: of creditors, relevant dates for subsequent cirp.kagazpp@gmail.com events of the process are available at: 9. Eligibility for resolution applicants under Can be sought by sending a request to the Resolution Professional at: section 25(2)(h) of the Code is available at:

cirp.kagazpp@gmail.com 10. Last date for receipt of expression of interest 05-March-25 Date of issue of provisional list of 07-March-25 prospective resolution applicants 12. Last date for submission of objections 12-March-25 to provisional list 13. Last date of issue of final list of 14-March-25 prospective resolution applicants 14. Date of issue of Information memorandum. evaluation matrix & request for resolution 16-March-25

plan to prospective resolution applicants

16. Process email id to submit EOI

17. Details of the Corporate Debtor's

registration status as MSME

15. Last date for submission of Resolution Plans 15-April-25

Anurag Nirbhaya Resolution Professional In the matter of KAGAZPRINT-N-PACK INDIA PRIVATE LIMITED Date: 18.02.2025 Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00870/2017-2018/11468 Place: New Delhi AFA Valid Upto 30.06.2025

cirp.kagazpp@gmail.com

JANA SMALL FINANCE BANK | Registered Office: The Fairway, Ground & First Floor, Survey No.10/1, 11/2 & 12/2B, Off Domlur, Koramangla Inner Ring Road, Next to EGL Business Park, Challaghatta, Bangalore-560071. Regional Branch Office: 16/12, 2nd Floor, W.E.A, Arya Samaj Road, Karol Bagh, Delhi-110005.

#### **DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF SARFAESI ACT, 2002.**

Whereas you the below mentioned Borrower's, Co-Borrower's, Guarantor's and Mortgagors have availed loans from Jana Small Finance Bank Limited, by mortgaging your immovable properties. Consequent to default committed by you all, your loan account has been classified as Non performing Asset, whereas Jana Small Finance Bank Limited being a secured creditor under the Act, and in exercise of the powers conferred under section 13(2) of the said Act read with rule 2 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued **Demand notice** calling upon the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors as mentioned in column No.2 to repay the amount mentioned in the

	Co-Borrower/ Guarantor/	n Account No. & an Amount	Details of the Security to be enforced		Amount Due in Rs. / as on		
Т	1 1) M/s. Mahesh, Prop.	- 1	Details of Secured Assets: Mortgaged Immovable Property - Schedule Property -				
П	Sarojni Nagar Sale		Part-'A': Hypothecated Moveable Assets: First Charge on all Raw materials and stock	Data of NDA	Rs.1,50,447/-		
П	Individual, Represented by	an Account	in the books of account and receivables and book debts of the business premises of the	Date of NPA:	(Rupees One		
П	its Partner <b>Mr. Mahesh No.</b>		company i.e., M/s. Mahesh, Prop. Sarojni Nagar Sale Individual.	01-02-2025	Lakh Fifty		
П	Kumar, 2) Mr. Mahesh	сиддинин кин г	Part-'B': Mortgaged Immovable Property - Schedule Property - Property Details-1:	Demand	Thousand Four		
П	Kumar, S/o. Mathura		Total Rakba 125 Sq.yds Part 5/6 Bhag Bakdar 104.17sq Gaj and Tamir Rakba 85 Sq Gaj				
П	Parasad (Borrower), 3) Mrs. Prem Devi, W/o. Mathura Parshad  Loan Amount: Rs.3,33,000/-		Part 5/6 Bhag Bakdar 70.83 Sq Gaj House Tax Number 3759. According Naksha Min	Notice Date:	Hundred Fourty		
П			Shilka Hajabajrang Lal Salam Baka Mohallan Banjarwara Rewari Tehsil and Dist. Rewari.	13-02-2025	Seven Only) as		
П			Owned by Mrs. Prem Devi, W/o. Mathura Parasad. Bounded as: East: Rasta, West:	13-02-2023	on 12-02-2025		
L	(Guarantor)		Heera Lal, North: Chownk Nagar Parishad, South: House of Maman Chand.				
	Notice is therefore given to the Perrowar/ Co Perrowar/ Currenter & Mortgager as montioned in Column No. 2, colling upon them to make negative to the aggregate amount of the aggregate amount on shown						

Notice is therefore given to the Borrower/ Co-Borrower/ Guarantor & Mortgagor as mentioned in Column No.2, calling upon them to make payment of the aggregate amount as shown in column No.6, against all the respective Borrower/ Co-Borrower within 60 days of Publication of this notice as the said amount is found payable in relation to the respective loan account as on the date shown in Column No.6. It is made clear that if the aggregate amount together with future interest and other amounts which may become payable till the date of payment, is not paid, Jana Small Finance Bank Limited shall be constrained to take appropriate action for enforcement of security interest upon properties as described in Column No.4. Please note that this publication is made without prejudice to such rights and remedies as are available to Jana Small Finance Bank Limited against the Borrower's/ Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors of the said financials under the law, you are further requested to note that as per section 13(13) of the said act, you are restrained/ prohibited from disposing of or dealing with the above security or transferring by way of sale, lease or otherwise of the secured asset without prior consent of Secured Creditor.

Date: 17.02.2025, Place: Rewari Sd/- Authorised Officer, For Jana Small Finance Bank Limited

## HDFC BANK

Name of Borrower(s) /

Sr.

## **HDFC Bank Limited**

Branch: The Capital Court, Munirka, Olof Palme Marg, Outer Ring Road, New Delhi-110 067 Tel.: 011-41596568, CIN L65920MH1994PLC080618, Website: www.hdfcbank.com

Date of

Description of

## POSSESSION NOTICE

Whereas the Authorised Officer of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC Limited having amalgamated with HDFC Bank Limited by virtue of a Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (HDFC), under the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the following borrowers to pay the amounts mentioned against their respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices, within 60 days from the date of of the said Notice/s, incidental expenses, costs, charges etc till the date of payment and / or realisation.

Date of

Outstanding

No.	Legal Heir(s) and Legal Representative(s)	Dues	Demand Notice	Physical Possession	Immovable Property / Secured Asset
1.	MR. KUSHAGR ANSAL (In his capacity as Co-Borrower as well as legal heir of Late Mr. Deepak Ansal (Co-borrower & Mortgagor), MRS. DIVYA ANSAL (In her capacity as Mortgagor & legal heir of Late Mr. Deepak Ansal (Co-borrower & Mortgagor) & MR. KARUN ANSAL (In his capacity as Legal Heir of Late Mr. Deepak Ansal (Co-borrower & Mortgagor), Deepak Ansal & Sons (HUF) (Mortgagor), Shree Satya Sai Construction & Development Pvt Ltd (in its Capacity as Co-Borrower& Mortgagor of other mortgaged property), & Vantage Estate & Infrastructure Pvt Ltd (mortgagor of other Mortgaged Property)	Rs.34,35,64,503/- (Rupees Thirty Four Crore Thirty Five Lakh Sixty Four Thousand Five Hundred and Three Only) Due as on 30-NOV-2023*	12-DEC- 2023	14-Feb-2025	Unit No. UB-16 (carpet area 100 Sq.ft,), Upper Basement, Surya Kiran Building Plot No. 6, Block No.134, situated at 19 Curzon Road (Now Known as Kasturba Gandhi Marg,) New Delhi With Construction thereon Present and Future
2.	MR. KUSHAGR ANSAL (In his capacity as Borrower as well as legal heir of Late Mr. Deepak Ansal (Co-borrower & Mortgagor), MRS. DIVYA ANSAL (In her capacity as Mortgagor & Borrower & legal heir of Late Mr. Deepak Ansal (Co-borrower & Mortgagor) & MR. KARUN ANSAL (In his capacity as Legal Heir of Late Mr. Deepak Ansal (Co-borrower & Mortgagor), Ansal Town Projects Pvt Ltd. (Erstwhile Known as Top Track Infotech Pvt Ltd) (In its Capacity as Borrower), Deepak Ansal & Sons (HUF) (In its capacity as Co-Borrower), Shree Satya Sai Construction & Development Pvt Ltd (in its Capacity as Co-Borrower), Shree Satya Sai Construction & Development Pvt Ltd (in its Capacity as Co-Borrower), Glorious Properties Pvt Ltd (Co-Borrower), Global Consultants and Designers Pvt Ltd (Co-Borrower), Akash Deep portfolios Pvt Ltd (Co-Borrower) and Sungrace Security Services	Rs.18,17,10,634/- (Rupees Eighteen Crore Seventeen Lakh Ten Thousand Six Hundred and Thirty Four Only) Due as on 30-NOV-2023	12-DEC- 2023	12-Feb-2025	Unit No. B -7B (carpet area 1179 Sq.ft,), Basement Floor, Surya Kiran Building Plot No. 6, Block No.134, situated at 19 Curzon Road (Now Known as Kasturba Gandhi Marg,) New Delhi With Construction thereon Present and Future

\*with further interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realisation.

However, since the borrowers / Mortgagors / Legal Heirs and Legal Representatives mentioned hereinabove have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the borrowers / Mortgagors / Legal Heirs and Legal Representatives mentioned hereinabove in particular and to the public in general that the Authorised Officer/s of HDFC has taken Physical possession mentioned at serial no. from 1 to 2 of the immovable property/ secured asset described herein above in exercise of powers conferred on him/them under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned above.

The borrowers / Mortgagors / Legal Heirs and Legal Representatives mentioned hereinabove in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid immovable property / secured asset and any dealings with the said Immovable Property /Secured Asset will be subject to the mortgage of HDFC. borrowers /Mortgagors/ Legal Heirs and Legal Representatives attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the

Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s. Copies of the Panchnama drawn and Inventory made are available with the undersigned, and the said the borrowers / Mortgagors / Legal

Heirs and Legal Representatives is requested to collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office

Pvt Ltd (Co-Borrower)

For HDFC Bank Ltd. Place: Delhi-N.C.R.

Date: 17-Feb-2025 Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013

Sd/-Authorised Officer



# **ENVIRO INFRA ENGINEERS LIMITED**

CIN: L45200DL2009PLC191418

Regd. Office: Unit No. 201, 2<sup>nd</sup> Floor, RG Metro Arcade, Sector-11, Rohini, New Delhi-110085 Phone: 011-40591549; Email: investors.relation@eiepl.in; Website: www.eiel.in

### NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INSTRUCTIONS

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108, 110 and all other applicable provisions, of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, the applicable guidelines/ circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable laws, Rules and Regulations as amended from time to time, Enviro Infra Engineers Limited ("the Company") is seeking the approval of its members through Postal Ballot by way of remote e-voting only ('e-voting') on matters as stated in the Notice of Postal Ballot dated February 6, 2025 ("the Notice"). The Notice is available on Company's website at www.eiel.in/investor, Bigshare Services Private Limited ('Bigshare') at https:// ivote.bigshareonline.com and on the websites of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

#### Members are hereby informed that:

- In accordance with MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Notice (containing draft resolution along with the explanatory statement, e-voting particulars and detailed procedure/ instructions on remote e-voting, etc.) on Monday, February 17, 2025 via electronic mode only, to the members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participants ('DP') / Depository and whose names are recorded in the Register of Members or Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Friday. February 14, 2025 ('Cut-off Date').
- The Company is pleased to provide remote e-voting facility to its members through Bigshare, to cast their votes electronically on the resolution as set forth in the Notice. Please note that in compliance of MCA Circulars, the assent/ dissent of the members on the resolution proposed in the Notice will be considered only through the remote e-voting system. Accordingly, physical copy of Notice, Postal Ballot form and pre-paid business reply envelope have not been sent to the members for the Postal Ballot, as permitted under MCA Circulars.
- The voting rights of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date. A person who is not a member as on Cut-off date should treat the Notice for information purpose only.
- The remote e-voting period shall starts from Tuesday, February 18, 2025 at 9:00 A.M.(IST) and ends on Wednesday, March 19, 2025 at 5:00 P.M.(IST). The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date & time and the e-voting module shall be forthwith disabled by Bigshare upon expiry of aforesaid period. Once the vote on the resolution is casted by the member, the same shall not allowed to the changed subsequently.
- If case of any query, clarification(s) and/or grievance(s) in respect of remote e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQ's") and i-vote e-voting module available at https:// ivote.bigshareonline.com under download section or you can mail to ivote@bigshareonline.com or connect at: 1800 22 54 22. Members may also write to Company Secretary at investors.relation@eiepl.in.
- Since the entire shareholding of the Company is in dematerialized form, all the Members are requested to register/update their email addresses with their respective Depository Participants.
- The Board of Directors has appointed Shri Alok Jain, Practising Company Secretary (ACS 30369; COP No.: 14828), as scrutinizer to scrutinize the remote e-voting processes in a fair and transparent manner and they have communicated their willingness to be appointed and will be available for the said purpose.
- The results of the Postal Ballot/e-voting will be announced on or before Friday, March 21, 2025. The voting results and scrutinizer's report shall be placed on the website of the Company at www.eiel.in, Bigshare at https://ivote.bigshareonline.com and shall also be displayed at the registered office of the Company. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

TCHHL0 Mr. Sachin

0028787

TCHIN07

2000010

Singh

(Borrower)

& Mrs. Raj

Kumari

0294300 (Co-Borrower)

TCHHLO Mr. Kapil Dev

Devi

(Borrower)

& Mrs. Parul

(Co-Borrower)

7200001

0019319

8 &

TCHIN07

0195284

2000010

For Enviro Infra Engineers Limited

Date: 17.02.2025 Place: New Delhi

Piyush Jain (Company Secretary and Compliance Officer)

As on 06/02/2025, an amount of

Rs. 16,72,475/- (Rupees Sixteen Lakh

Seventy Two Thousand Four Hundred

Seventy Five Only) is due and payable by

you under the loan account TCHHL07

20000100287873 and an amount of

Rs. 81,269/- (Rupees Eighty One

Thousand Two Hundred Sixty Nine Only) is

due and payable under the loan account

No. TCHIN0720000100294300 by you i.e.

totaling to Rs. 17,53,744/- (Rupees

Seventeen Lakh Fifty Three Thousand

Seven Hundred Forty Four Only)

As on 07/02/2025, an amount of

Rs. 43,29,746/- (Rupees Forty Three Lakh

Six Only) is due and payable by you under

the loan account TCHHL07200001

00193198 and an amount of Rs. 1,95,879/

(Rupees One Lakh Ninety Five Thousand

Eight Hundred Seventy Nine Only) is due and payable under the loan account no

TCHIN0720000100195284 by you i.e.

totaling to Rs. 45,25,625 /- (Rupees Forty Five Lakh Twenty Five Thousand Six Hundred Twenty Five Only)

As on 07/02/2025, an amount of

Rs. 11,37,375/- (Rupees Eleven Lakh Thirty

Five Only) is due and payable by you

under the loan account TCHHL0720000

100190676 and an amount of Rs. 59,006/-

(Rupees Fifty Nine Thousand Six Only) is

due and payable under the loan account

no TCHIN0720000100196401 by you i.e.

Seven Thousand Three Hundred Seventy 03.02.2025

Twenty Nine Thousand Seven Hundred Forty 03.02.2025

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:-

all Piece & Parcels Of: Built-Up Property bearing no. 172, with roof, built on Third Floor with

all Roof/Terrace rights eastern side portion, Land area measuring 63 Sq. Yards., Out of total

and area measuring 126 Sq. Yards., out of khasra no 706, situated in Revenue Estate of

Village Nawada, Delhi state Delhi, colony known as Shyam Park, Uttam Nagar, New

Delhi-110059 with one Bike Parking space, alongwith ownership rights in the

underneath land with all common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries:

East: Property no 157, West: Part of Plot, North: Road, South: Other Property

06.02.2025

01.02.2025

07.02.2025

07.02.2025

&

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park, Ganpatrao TATA Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No.: U67190MH2008PLC187552

DEMAND NOTICE Under Section 13 (2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notice dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (all singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amount mentioned in the respective Demand Notice, within 60 days from the date of the respective Notice as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s) /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names, together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any,

following	y the said Obligor(s). As s Secured Asset(s) have b respectively.	ecurity for due repayment seen mortgaged to TCHI		
Loan Account No.	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Total Outstanding Due Rs. as on below Dates	Date of Demand Notice & NPA Date	
TCHHL03 590001001 43323 & TCHIN039	Mr. Munish (Borrower) & Mrs. Lakshmi (Co-Borrower)	As on 06/02/2025, an amount of Rs. 12,64,070/- (Rupees Twelve Lakh Sixty Four Thousand Seventy	06.02.2025 & 03.02.2025	3

900010023 Only) is due and payable by you under Loan TCHIN035 Account No. TCHHL0359 900010014 000100143323 and an 5143 amount of Rs. 1,08,205/-(Rupees One Lakh Eight Thousand Two Hundred

Five Only) is due and payable by you under Loan Account No.

Lakh Twenty Six Thousand

Three Hundred Twelve

Only) is due and payable

by you under Loan

Account No. TCHIN039900

0100236308 i.e. totaling to

Rs. 14,98,587/- (Rupees

Fourteen Lakh Ninety Eight

Thousand Five Hundred

Eighty Seven Only)

As on 06/02/2025, an amount of Rs.

22,78,250/- (Rupees Twenty Two Lakh

Seventy Eight Thousand Two Hundred Fifty

Only) is due and payable by you under

the loan account TCHHL0720000100157

238 and an amount of Rs. 1,19,533/-

(Rupees One Lakh Nineteen Thousand

Five Hundred Thirty Three Only) is due and payable under the loan account no TCHIN0720000100176149 by you i.e.

totaling to Rs. 23,97,783/- (Rupees

Seven Hundred Eighty Three Only)

As on 06/02/2025, an amount of

Rs. 15,30,973/- (Rupees Fifteen Lakh

Thirty Thousand Nine Hundred Seventy

Three Only) is due and payable by you

under the loan account TCHHL0720000

100316303 and an amount of Rs. 82,157/

(Rupees Eighty Two Thousand One

Hundred Fifty Seven Only) is due and

payable under the loan account no

TCHIN0720000100318516 by you i.e.

totaling to Rs. 16,13,130/- (Rupees

Sixteen Lakh Thirteen Thousand One

Hundred Thirty Only)

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged

Properties:- All Piece & Parcels Of: Residential Flat no. UGF-03, MIC, Upper Ground

Floor, Without Roof Right, Front Side/Western Portion, having total covered area 380

Sq. Ft. or 35.30 Sq. Mtrs., situated at residential plot no B-39 & 40 part, comprised in

khsra no 365, Ruby Enclave, Hadbast Village Sadullabad, Pargana & Tehsil-Loni,

District- Ghaziabad-201102 with all common amenities mentioned in Sale Deed.

Boundaries of plot: East: Residential vacant plot, Rasta 15 Ft Wide, West: Rasta 18 Ft

wide, North: Rasta 20 Ft wide, South: Residential vacant Plot no 41

common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries: East: Others Plot, West:

Others Plot, North: Road 20 feet wide-. South: Gali 20 feet wide.

wenty Three Lakh Ninety Seven Thousand

South-House No. 458B

0015723

8 &

TCHIN07

0176149

TCHHL0 Mr. Narender

2000010 (Co-Borrower)

TCHHLO Mr. Gopal

0318516 (Co-Borrower)

(Borrower)

& Mrs. Vineeta

7200001 Prakash

0031630

3 &

TCHIN07

financialexp.epapr.in

2000010 Devi

Nawariya

(Borrower)

& Mr. Rachna

TCHIN0359000100145143 and an amount of Rs. 1,26,312/- (Rupees One

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:

All Piece & Parcels Of: Entire Third Floor with Roof/Terrace rights front side portion of freehold built-up property bearing municipal no. 365, Gali no 29 (i.e 365/29), with roof rights upto Sky Land area measuring 124 Sq. Yards. Part of Old Plot no 4, situated in the area of village Chowkri Mubarkabad abadi know as Onkar Nagar, Hansa Puri, Tri Nagar, Delhi-110035 with all common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries: East – Gali 8Ft. Wide, West - other's Property, North - Hansa Puri Main Road, South - Other Property. TCHHL0 Mr. Rakesh 7200001 6 &

Kumar 0019067 (Borrower) & Ms. TCHIN07 Santoshi Devi 2000010 (Co-Borrower) 0196401

totaling to Rs. 11,96,381/- (Rupees Eleven Lakh Ninety Six Thousand Three Hundred Eighty One Only) Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: ALL PIECE & PARCELS OF: Flat no 218, on 2nd Floor, Block E2, flat category- EWS, having Plint area 54.080 Sq. Mtrs., carpet area-25 Sq. Mtrs. Pocket-C, Sector-A1 to A4, Locality Narela, Delhi -110040 with all common amenities mentioned in Sale Deed.

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties:

All Piece & Parcels of: 1. Built Up Freehold Property Bearing no. 50, area measuring 31.69

Sq. Mtrs in Block- G, Pocket -20, Sector-7, Situated in the layout plan of Rohini, Residential

Scheme. Delhi-110085 with all common amenities under sale deed. Boundaries: East

 Piot no. 51, West – Piot no. 49, North – Piot no. 07, South – Open, 2, Built- Up Freehold Property Bearing no. 51, area measuring 31.69 Sq. Mtrs in Block- G. Pocket -20, Sector-7

Situated in the layout plan of Rohini, Residential Scheme, Delhi-110085 with all commor

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: TCHHF0 Mr. Shubham Garg All piece & parcels of Residential Flat no 457B, Nyay Khand-II/457B, on second Floor, EWS, covered area measuring 20.14 Sq. Mtrs., situated at Indirapuram, Ghaziabad, 0103652 Foods through its Tehsil & District Ghaziabad. Uttar Pradesh with all common amenities mentioned in Sale Deed. Boundaries:- East- Block, West- House no. 460B, North- 18 Ft. Wide Road. (Co-Borrower)

06.02.2025

03.02.2025

06.02.2025

01.02.2025

New Delhi

As on 07/02/2025, an 73600010 (Borrower) & M/s Darshana amount of Rs. 31,94,842/-(Rupees Thirty One Lakh | 03.02.2025 Ninety Four Thousand Eight Proprietors & Ms. Priti Garg Hundred Forty Two Only)

TCHHLO Mr. Dhananjay 35900010 Pratap Singh 0110245, (Borrower) & TCHIN03 Akhandiyoti 59000100 Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: Fabtax Limited 110735 all Piece & Parcels Of: Built up property bearing no.-188, Land area measuring 100 square Through its yards, out of Khasra no.59/11, situated in the area of village Hastsal Delhi state Delhi Directors colony Known as Mohan Garden, K-1 Block, Uttam Nagar, New Delhi-110059 with all

(Co-Borrower)

amenities under sale deed. Boundaries: East – Plot no. 6, West – Plot no. 50, North – Plot As on 10/02/2025, an amount of Rs. 10.02.2025 56,52,007/- (Rupees Fifty Six Lakh Fifty Two Thousand Seven Only) is due and 03.02.2025 payable by you under Loan Account No. TCHHL03590 00100110245 and an amount of Rs. 4,99,293/- (Rupees Four

Lakh Ninety Nine Thousand Two Hundred Ninety Three Only) is due and payable by you under Loan Account No. TCHIN0359000100110735 i.e. totalling to Rs. 61,51,300/- (Rupees Sixty One Lakh Fifty One Thousand Three Hundred Only) Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All that piece and parcel of Freehold DDALIG Residential Flat bearing No. 110 – A. Ground

with all common amenities mentioned in Sale Deed. with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in

Floor, Admeasuring Plinth Area - 48 Sq. Mtrs., Situated at Block/Pocket GH - 02

(familiar as Ankur Apartments), Colony known as Paschim Vihar, Delhi - 110063,

respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s)/ Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s) as to the costs and consequences.

The said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property(ies), whether by

way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person

who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. DATE :- 18-02-2025.

PLACE :- DELHI

Sd/- Authorised Officer For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED



जनसता

क0 सं0	ऋणी का नाम	देय राशि	झात भार के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	आरक्षित मूल्य घरोहर राशि
		मुरादाबा	द शाखा	बिड बढ़ाने की रावि
35	ऋणकर्ताः मैससं एशियन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज पार्टनर— श्री जितेन्द्र सिंह विश्नोई पुत्र श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह, पताः विश्नोई कुंज, मंगल का बाजार, हरधला, सोनकपुर, मुरादाबाद—244001 ऋणकर्ताः मैससं एशियन सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज पार्टनर— श्री कुलदीप विश्नोई पुत्र श्री जितेंद्र सिंह विश्नोई पता विश्नोई कुंज, मंगल का बाजार, हरधला,	रू 2675758.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 16.12.2024 से	संपत्ति संख्या 1— संपत्ति का साम्यिक बंधक रिथत खसरा संख्या 326, मौहल्ला हरथला मुस्तकम मुरादाबाद, क्षेत्रफल 141.96 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री राजेंद्र कुमार और श्री जितेंद्र सिंह दोनों पुत्र श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह, सीमायें:—पूर्वः डॉ. रामस्वरूप की संपत्ति, पश्चिमः रास्ता कॉमन, उत्तरः कुंदन लाल की संपत्ति, दक्षिणः डॉ. रामस्वरूप की संपत्ति।	रुपये 55,50,000.00 रुपये 5,55,000.00 रुपये 10000.00
	सोनकपुर, मुरादाबाद-244001 गारंटरः श्री राजंद्र विश्नोई पुत्र श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पताः विश्नोई कुज, मंगल का		सांकेतिक कब्जा संपत्ति संख्या 2:— संपत्ति का साम्यिक	रुपये
	बाजार, हरथला, सोनकपुर, मुरादाबाद— 244001 पताः खसरा नंबर 326, मीहल्ला हरथला मुस्तहकम मुरादाबाद—244001 <u>गारंटरः</u> श्रीमती पूनम पत्नी श्री राकेश		बंधक स्थित खसरा संख्या 326 मीहल्ला हरथला मुस्तकम मुरादाबाद, क्षेत्रफल 59.67 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्रीमती आशा देवी पत्नी	20,50,000.00 रुपये
	कुमार पताः विश्नोई कुंज, मंगल का बाजार, हरथला, सोनकपुर, मुरादाबाद –244001  गारंटरः श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह, पताः विश्नोई कुंज, मंगल का बाजार, हरथला, सोनकपुर, मुरादाबाद –244001 पताः खसरा नबर 326, मीहल्ला हरथला मुस्तहकम, मुरादाबाद – 244001 गारंटरः श्री कुलदीप विश्नोई पुत्र श्री जितेंद्र सिंह विश्नोई पताः विश्नोई कुंज, मंगल का बाजार, हरथला, सोनकपुर, मुरादाबाद – 244001 गारंटरः श्री जितेन्द्र सिंह विश्नोई पुत्र श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पताः विश्नोई पुत्र श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह पताः विश्नोई कुंज, मंगल का बाजार, हरथला, सोनकपुर, मुरादाबाद – 244001 पताः खसरा नंबर 326 मीहल्ला हरथला मुस्तहकम		श्री जितेन्द्र सिंह, सीमायें:—पूर्व: आराजी डॉ. राम स्वरूप, पश्चिम: रास्ता 2.40 मीटर चौड़ा, उत्तर: आराजी मुकीर, दक्षिण: श्री जितेन्द्र सिंह और श्री राजेन्द्र कुमार की संपत्ति। सांकेंतिक कळा	रुपये 10000.00
6	मुरादाबाद- 244001 1. श्री विपिन वर्मा, पताः जयंतीपुर	₹ 24,79,602.00	आवासीय मकान संपत्ति स्थित खसरा संख्या	रुपये 29,50,000.00
	रोड, लक्ष्मी शादी होंल के सामने, ब्रह्मपुरी कॉलोनी मुरादाबाद —244001 2. श्रीमती गींता वर्मा, पताः	+ ब्याज एवं अन्य खर्च 16.12.2024 से	94, ग्राम जयंतीपुर पश्चिम, तह. और जिला. मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश— 244001, क्षेत्रफल 84.00 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री विपिन वर्मा, सीमाये:-पूर्व- प्लॉट संजीव और रास्ता 6	रुपये 2,95,000.00
	जयंतीपुर रोड, लक्ष्मी शादी हॉल के सामने, ब्रह्मपुरी कॉलोनी मुरादाबाद –244001		फीट चौड़ा, पश्चिम— प्लॉट राम औतार, उत्तर— आनंद का प्लॉट, दक्षिण— संपत्ति भोगराज सिंह।	रुपये 10000.00
	<ol> <li>श्री संजय कुमार वर्मा, पताः पुत्र मनोहर लाल वर्मा जयंतीपुर रोड, शिवनगर, मुरादाबाद, यूपी–244001</li> </ol>		सांकेतिक कब्जा	
7	<ol> <li>मैसर्स विकास कुमार विशष्ठ कॉन्ट्रैक्टर, प्रोपराइटर, श्री विकास</li> </ol>	<b>बिजनो</b> त रू 32,18,822.00	अायासीय मकान संख्याः 1105 / ए, मौहल्ला नई बस्ती, बी–14, पंजाब एवं सिंध बँक के	रुपये
	कुमार विशेष्ठ, पताः— मकान नंबर 1120, पंजाब एंड सिंध बैंक के पास, मौहल्ला नई बस्ती, बी—14, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 246701 2. श्री विकास कुमार विशष्ठ पुत्र श्री मुनीश चन्द्र शर्मा, पताः— मकान नंबर 1120, पंजाब एंड सिंध बैंक के पास, मौहल्ला नई बस्ती, बी—14, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 246701, इसके अलावाः—	32,16,822.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 16.12.2024 से	पीछे, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246701, क्षेत्रफल 280.29 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री विकास कुमार विशष्ठ, सीमाये:- पूर्वः के के अग्रवाल का मकान, पश्चिमः राजीव अग्रवाल का मकान, उत्तरः 10 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः सूर्यमणि का मकान।	66,00,000.00 रूपये 6,60,000.00 रूपये 10000.00
	मकान नंबर 1105 ए. नई बस्ती, सिविल लाइन्स, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 246701 3. श्री विकास कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री मुनीश चन्द्र शर्मा, पता:— मकान नंबर 1105 ए. नई बस्ती, सिविल लाइन्स, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, 246701, इसके अलावा: मकान नंबर 1120, पंजाब एंड सिंध बैंक के पास, मौहल्ला नई बस्ती,		सांकैतिक कब्जा	
8	1. श्री मुजाहिद पुत्र श्री अब्दुल वहाब,	हापुड़ *	संपत्ति-1 का विवरणः संपत्ति स्थित प्लॉट	रुपये
	पताः 2076/4, शिवदयाल पुरा—2, बुलन्दशहर रोड, हापुड यूपी 245101 2. श्रीमती अस्मा पत्नी मुहाजिर, पताः 2076/4 शिवदयालपुरा —2, बुलन्दशहर रोड, हापुड यूपी 245101 3. श्री मुजाहिर पुत्र श्री अब्दुल वहाब, प्रोपराइटर मैसर्स सोफिया ट्रेडर्स, पताः 2076/4 शिवदयाल पुरा— 2 मदर टेरेसा स्कूल के सामने, बुलंदशहर रोड हापुड यूपी 245101 4. श्री शाहरुख पुत्र श्री मुजाहिद पताः 2076/4 शिवदयालपुरा— 2 बुलन्दशहर रोड, हापुड यूपी 245101	9,79,276.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 16.12.2024 से	संख्या 50, खसरा संख्या 1286 और 1287, मजीन्दुपुर हापुड यूपी— 245101, क्षेत्रफल 103. 15 वर्ग मीटर, स्वामिनी श्रीमती आसमा बेगम पत्नी मुजाहिर, सीमायं:— वत्तर— प्लॉट संख्या 45 और 46, नसरीन का मकान, पूर्व— प्लॉट संख्या 49, नूर मोहम्मद, पश्चिम— प्लॉट संख्या 51, आसमा इनरोजा, दक्षिण— 15" चौडी सडक। संपत्ति—2 का विवरणः संपत्ति स्थित प्लॉट संख्या 51, खसरा संख्या 1286 और 1287 मजीन्दुपुर हापुड यूपी— 245101, क्षेत्रफल 103. 15 वर्ग मीटर, स्वामिनी श्रीमती आसमा बेगम पत्नी मुजाहिर, सीमायं:—उत्तर— प्लॉट संख्या 46 और अन्य, पूर्व— प्लॉट संख्या 51 आसमा इमरोजा, पश्चिम— सावेज का मकान, दक्षिण— 15" चौडी सडक। नोटः चूंकि संपत्तियां एक साथ हैं, इसलिए इन्हें एक साथ बेचा जाएगा।	42,50,000.00 रूपये 4,25,000.00 रूपये 10000.00
9	1. श्री मुकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री	मोदीनग *	<b>र शाखा</b> संपत्ति स्थित मकान नं. 107, गली नं. 1,	रुपये
THE RESIDENCE AND AND PROPERTY OF THE LONG CO.	विष्णु कुमार गुप्ता, प्रो. मेसर्स गुप्ता जनरल स्टोर, पताः मकान नंबर 107, सुभाष विहार, गली नंबर 1, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद यूपी 201204 2. श्री विष्णु कुमार गुप्ता, पताः मकान नंबर 107, सुभाष विहार, गली नंबर 1, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद यूपी 201204, इसके अलावाः श्री विष्णु कुमार गुप्ता 27, गली नंबर 1, सुभाष विहार, मोदीनगर उत्तर प्रदेश 201204	14,47,058.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 16.12.2024 से	सुभाष विहार, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 351.17 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री विष्णु कुमार गुप्ता, सीमायें:— पूर्वः गली, पश्चिमः महेंद्र कुमार का मकान, उत्तरः चौधरी ब्रम्ह प्रकाश का मकान, दक्षिणः गली रास्ता।	46,50,000.00 रुपये 4,65,000.00 रुपये 10000.00
0	1. मैसर्स फलक शूज फैक्ट्री, प्रोप.	क्ष्म ३३०० इ. ६४ ०३३ ००	आवासीय मकान संपत्ति, स्थित नगर निगम	रुपये
THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	मो. फारुख कुरेशी, पताः प्लॉट नंबर 19/27 टीला अजमेरी खान मंटोला आगरा यूपी— 282003 इसके अलावाः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी— 282003 2. मो. फारुख कुरेशी, पताः प्लॉट नंबर 19/27 टीला अजमेरी खान मंटोला आगरा यूपी— 282003 इसके अलावाः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी— 282003 3 मो. हारून, पताः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी—282003 4.श्रीमती अमीना, पताः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी—282003 5.श्री सईद कुरेशी, पताः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी—282003 6. फरीद जी, पताः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी—282003 7. नसीम साहब, पताः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी—282003 7. नसीम साहब, पताः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा किला आगरा यूपी—282003 7. नसीम साहब, पताः निवासी प्लॉट नंबर 22/221, ढोली खार आगरा	25,64,933.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 16.12.2024 से	संख्या 8/213, भागीपुरा लोहामंडी वार्ड, आगरा उप जिला, आगरा उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 128.75 वर्ग मीटर, स्वामित्व मोहम्मद फारुख कुरैशी, मोहम्मद हारून, श्रीमती अमीना, श्री सैय्यद कुरैशी, श्री फरीद और श्री नसीम, सीमायं—पूर्व— गली, पश्चिम— मोहम्मद इकबाल का मकान, उत्तर— नूर मोहम्मद का मकान, दक्षिण— महेश चंद का मकान।	26,00,000.00 रूपये 2,60,000.00 रूपये 10000.00

बोली आवेदन / केवाईसी दस्तावेज / ईएमडी आदि जमा करने की अंतिम तिथि 11.03.2025 समय 4:45 बजे तक संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समयः दिनांक 24-02-2025 से 01-03-2025 को सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट https://baanknet.com पोर्टल https://baanknet.com देखें ।

> नीलामी में सहायता हेतु श्री नीरज कुमार, प्राधिकृत अधिकारी, नोएडा अंचल, मोबाइलः 8910367326, 9506055044, 9458234543 से संपर्क करें।

परिवर्तित सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत आगमी विक्रय हेत् 15 दिवसीय वैधानिक विक्रय सूचना उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों को एतद द्वारा नीलामी की दिनांक के पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को करने हेतु सूचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त वर्णित संपत्तियों की ई-नीलामी कर दिया जावेगा तथा शेष राशि ब्याज एवं अन्य खर्ची सहित

उनसे वसूल की जायगी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिनाक-17.02.2025

लीगल सेल HDFC BANK प्लॉट # 31. नजफगढ इंडस्टियल एरिया. टॉवर-ए. 1ला तल. शिवाजी मार्ग. o understand your world मोती नगर, नई दिल्ली-110015

"परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के

प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सचना एतद्द्वारा जन-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटरों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के

पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभृत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की i) श्री ब्रह्म प्रकाश गोयल, पुत्र श्री श्री निवास गोयल, ii) श्रीमती साधना गोयल, पत्नी श्री ब्रह्म प्रकाश गोयल, iii) श्रीमती मीनाक्षी देवी से एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये आगे के ब्याज तथा लाग होने वाले चार्जेज के साथ 04.03.2015 को बकाया रु. 61.06.688/-(रु. इकसठ लाख छ: हजार छ: सौ अठासी मात्र) की वस्ली के लिये 25 मार्च, 2025 को बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 3,50,00,000/- तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 35,00,000/- प्रति सम्पत्ति के लिए होगा। अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

प्रदेश 201001 में, भवन का नाम : सिटी बैंक्वेट एंड होटल्स। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभृत क्रेडीटर की वेबसाइट

व्यावसायिक सम्पत्ति सं. एम-111/68, माप 224 वर्ग मी., नेहरू सीजीएचएस लि., नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर

https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices में दी गई लिंक देखें। सम्पत्ति संबंधी पूछताछ के लिये सम्पर्क करें : श्री अरविन्द सहोता एवं श्री भुवन सिंह (प्राधिकृत अधिकारी, मो. नं.: 9582595505 एवं 9212504642

तिथि : 18.2.2025 प्राधिकत अधिकारी स्थान : दिल्ली एवं एनसीआर एचडीएफसी बैंक लि.

> माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-IV नई दिल्ली के समक्ष IA NO. 828/2025

CP (IB) No. 21/ND/2022 के मामले में:

यस बैंक लिमिटेड ..वित्तीय ऋणदाता

मदर्स प्राइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ..कॉर्पोरेट देनदार

के मामले में और एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी आईपीई को समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया मदर्स प्राईड एजुकेशन प्रसन्ना प्राइवेट लिमिटेड के मामले में श्री अंकित गोयल के माध्यम से आईपीई के पार्टनर

आईपीई की ओर से कार्य करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत। ....समाधान पेशेवर/आवेदक

प्रवीण कुमार एवं अन्य माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ-ाV द्वारा पारित आईए सं. 828 / 2025 के आदेश दिनांक 17.02.2025 के अनुसार, नीचे उल्लिखित सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई की तिथि अर्थात 21 फरवरी 2025 को दोपहर 02.30 बजे माननीय एनसीएलटी, न्यू बेंच, न्यायालय कक्त-IV के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अध्या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना आवश्यक है। उक्त प्रतिवादियों का विवरण

इस प्रकार है: -अंतरिम आवेदन संख्या 828/2025 प्रति. पार्टी का नाम

सं.		
1.	प्रवीण कुमार	डी–816, ब्लॉक मंगोल पुरी, नई दिल्ली–110048
2.	गणेश चंद्र	एन 608, सेवा नगर लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
3.	मेघा वर्मा	डी — 16/32, सेक्टर 7, रोहिणी, नई दिल्ली—110085
4.	राज रानी गुप्ता	11 / 77, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026
5:	वेवेन्द्र गुप्ता	ए—172. गीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110087
		और: मार्वल मेशन, 1 लिंक रोड, पॉकेट-1, समालखा, दिल्ली-110037
6.	सुवा गुप्ता	मकान नं. 11 / 77, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
7.	प्रतीक गुप्ता	11/77, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026
8.	पारस गुप्ता	ए—172, मीरा बाग, पशिम विहार, नई दिल्ली—110087 और: मार्वल मेंशन, 1 लिंक रोड, पॉकेट—1, समालखा, दिल्ली—110037
9.	अनिल कुमार गोयल	मकान नं. 12, रोड नंबर 8, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110026
10.	सुखर्विवर सिंह	सी / 17, दूसरी मंजिल न्यू रोहतक रोड, करोल बाग दिल्ली—110005
11.3	विग्विजय यादव	मकान नं. 1720, कुशल वाटिका वजीराबाद गुड़गांव 122001 हरियाणा

माननीय एनसीएलटी नई दिल्ली पीठ के समक्ष आपकी उपस्थिति का तत्काल अनुरोध है।

सीए. अंकित गोयल. एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी (रिजॉल्युशन प्रोफेशनल) के प्राधिकृत पार्टनर मदर्स प्राइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड आईपी पंजीकरण सं IBBI/IPE-0002/IPA-1/2022-23/50001

इंगेलः — motherspeipl.ibc@gmail.com

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26" कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से यूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाधार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक

के समझ उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (b)

के मामले में बुम्मा सॉल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड CIN: U17099HR2023PTC110114 जिसका पंजीकृत कार्यालय : एच. नं. जी-24, मारुति कुंज, भोंडसी, गुरुगांव, हरियाणा–122101 इंडिया. में

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समेक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'हरियाणा राज्य' से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख कावार 15 जनवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरंडम ऑफ़ एसोसीशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के फंजीकृत कार्यातय के प्रस्तावित स्थानांतरण र

यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शप्ध पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निवेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित चीनवयाल अत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्यारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीवृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

गुरुगांव, हरियाणा-122101 इंडिया कृत्ते आवेदक की और से युम्मा संल्यिशंस प्राईवेट लिमिटेड तिथि : 17.02.2025 थी, रोहित मीर्य स्थान : गुरुग्राम डीआईएन : 10823027

KAIROSOFT

KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED

(Formerly known as Pankaj Piyush Trade and Investment Limited)

CIN: L22209DL1982PLC256291

Registered Office: DPT612, F-79& 80, DLF Prime Towers,

Okhla Industrial Estate, South Delhi, New Delhi-110020

Tel: +91 9818502247 Email: infopptinvestment@gmail.com

Website: www.kairosoft.ai

Contact Person: Bhag Chand Sharma, Company Secretary & Compliance Officer FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED ('OUR COMPANY' OR 'THE ISSUER') ONLY NOTICE FOR CHANGE IN RIGHT ISSUE PERIOD

This corrigendum ("Corrigendum") should be read with conjunction with the

advertisement dated Monday, 17th February, 2025 published in relation to Rights

Issue of Kairosoft Al Solutions Limited. The Right's Issue Committee of the Board of

Directors of the company at its meeting held on Monday, 17th February, 2025 has

considered and approved the modification of the rights issue period starting from

Finalization of Basis of allotment (on and about) | Wednesday, 12th March, 2025

Date of Credit Rights Entitlement (on and about) Tuesday, 11th February, 2025

\*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market

transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlement are credited to the demat

\*\* Our Board or the Rights Issue Committees will have the right to extend the Issue Pernod as

it may determine from time to time but not exceeding 30 days from the Issue Opening Date

(inclusive of the Issue Opening Date) or such other time as maybe permitted as per

applicable law. Further, no withdrawal of application shall be permitted by any applicant after

The letter of offer dated 05th February, 2025 and the advertisement dated Monday, 17th

February, 2025 shall be read in conjunction with this Corrigendum and stands suitably

Day and Date

Friday, 14th February, 2025

Thursday, 20th February, 2025

Tuesday, 25th February, 2025

Monday, 3rd March, 2025

Tuesday, 18th March, 2025

Wednesday, 26th March, 2025

For On Behalf of the Board of Directors

KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED

Mr. Sagar Khurana

**Managing Director** 

Thursday, 20th February, 2025 to Monday, 3rd March, 2025 (both days inclusive).

एच नं जी-24, मारुति कुंज, भोंडसी,

उत्तर रेळवे शुद्धिपत्र

संदर्भः (i) निविदा सूचना। 81/2024-25 दिनांक 13.12.2024 (क्र. सं. 02) (ii) निविदा सं 08235690 नियत तिथि 18.02.2025

उपरोक्त निविदा के संदर्भ में अंतिम तिथि 18.02.2024 से बढाकर 12.03.2025 कर दी गई है. और वस्तु विवरण भी बदल दिया गया है। सभी नियम और शर्ते अपरिवर्तित हैं। शुद्धिपत्र वेबसाइट www.ireps.gov.in पर प्रकाशित किया गया है।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम्, 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

एवीएम दैवल डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U63040DL2009PTC190908) जिसका पंजीकत कार्यालयः **मकान नंबर** डब्ल्यू जेड–153 मेन नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर,

दिल्ली-110059 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता

तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है । कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रमावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एगसीए--21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख सं चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

पर भी भेजें। मकान नंबर डब्ल्यू जेड-153 मेन नजफगढ़ रोंड, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर सें

एवीएम द्रैवल डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड

मुकेश कुमार शर्मा विनांक: 17.02.2025 स्थानः दिल्ली डीआईएन: 02621628

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में }

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 38 (5) (ए) के मामले में

टैक्सकेयर इंस्ट्रमेंट्स लिमिटेड (CIN:U29309DL2018PLC332900) जिसका पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. ६ खसरा नं. 55 / 9, दाल मिल कॉम्प्लेक्स हस्तसाल इंडिस्ट्रियल एरिया, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी /याचिकाकर्ता तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम. 2013 की घारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 10 फरवरी, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेनोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपय पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चीदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत ढाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते

प्लॉट नं. ६ खसरा नं. 55/9, दाल मिल कॉम्प्लेक्स हस्तसाल इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

प्ररूप संख्या आईएनसी —26

ि कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में ]

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

माननीय क्षेत्रीय निदेशक,

उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013

की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014

मैसर्स गोल्डन आलमंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U51221PB1998PTC021510) जिसका

पंजीकृत कार्यालय जी टी रोड, फोर फील्ड्स

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत क्षेत्रीय

निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली के समक्ष एक

आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान 'पंजाब' राज्य से

'हरियाणा' राज्य स्थानांतरित करने के लिए

सोमवार, 17 फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित विशेष

प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के

ज्ञापन में परिवर्तन की पृष्टि के लिए जिसकी एक प्रति संलग्न है, कंपनी को एसोसिएशन के ज्ञापन

के खंड ॥ में स्थिति को संशोधित की पृष्टि की मांग

कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित परिवर्तन से

प्रभावित होने की संभावना है, कपया शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां, मूल प्रति क्षेत्रीय

निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बेंच, दिल्ली को तथा उसकी

एक प्रति कंपनी के ऊपर उल्लिखित पंजीकत कार्यालय को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख

से 14 दिनों के भीतर भेज सकता है या सुपुर्द कर

सकता है। ऐसा न करने पर, कृपया ध्यान दें कि

ऐसे व्यक्ति को परिवर्तन के लिए सहमति देने वाला

माना जाएगा तथा मामले का तदनुसार एकपक्षीय

गोल्डन आलमंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

आपका विश्वासपात्र,

हस्ता /-

निदेशक

सुनीर सचदेव

के लिए और की ओर से

अमृतसर, पंजाब, भारत, 143001 में स्थित है।

कंपनी आवेदन संख्या .....

के नियम 30 के साथ पठित ।

के मामले में:

के मामले में:

की गई है।

टैक्सकेयर इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड दिनांक: 17.02.2025 दीपक सचन (गिदेशक) स्थान : नई दिल्ली ढीआईएन: 08116508

## एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड

Date: February 18, 2025

Place: Delhi

Issue Schedule: **Particulars** 

Issue Opening Date

Right Entitlement\*

Issue of Closing Date\*\*

Date of Allotment (on and about)

Last Date for credit of Rights Entitlement

Last Date for On Market Renunciation of the

Date of Listing and Trading (on and about)

account of the Renounces on or prior the Issue Closing Date.

modified to the extent of the information set out above

सीआईएन: L45200DL2009PLC191418 पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 201, द्वितीय तल, आर जी मेट्रो आर्केड, सेक्टर-11, रोहिणी, नई दिल्ली - 110085

विनांकः 17.02.2025

फोन: 011-40591549. ईमेल: investors.relation@eiepl.in, वेबसाइट: www.eiel.in

## पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों की सूचना

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की धारा 108, 110 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी लागू दिशानिर्देश/परिपत्र, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और समय-समय पर संशोधित अन्य लागु कानुन, नियम और विनियम के अनुसार, एनवायरों इंफा इंजीनियर्स लिमिटेड ("कंपनी") 6 फरवरी, 2025 के पोस्टल बैलट के नोटिस ("नोटिस") में उल्लिखित मामलों पर केवल रिमोट ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग") के माध्यम से पोस्टल बैलट के जरिए अपने सदस्यों की मंजूरी मांग रही है। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.eiel.in/investor, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('बिगशेयर') की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

## सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

- क) एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने नोटिस (जिसमें स्पष्टीकरण विवरण, ई-वोटिंग विवरण और रिमोट ई-वोटिंग पर विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश आदि के साथ मसीदा प्रस्ताव शामिल है) सोमवार, 17 फरवरी, 2025 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('<mark>डीपी')</mark>/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 ('**कट-ऑफ** तिथि') को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर या लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं।
- ख) कंपनी अपने सदस्यों को बिगशेयर के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है, ताकि वे नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर सदस्यों की सहमति/असहमति पर केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से विचार किया जाएगा। तदनुसार, नोटिस की भौतिक प्रति, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफा पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को नहीं भेजा गया है, जैसा कि एमसीए परिपत्रों के तहत अनुमति दी गई है।
- ग) सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।
- घ) रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 18 फरवरी, 2025 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और बुधवार, 19 मार्च, 2025 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति उपरोक्त तिथि और समय के बाद नहीं दी जाएगी और ई-वोटिंग मॉड्यूल को बिगशेयर द्वारा उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, बाद में इसमें बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ङ) यदि रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रश्न, स्पष्टीकरण और/या शिकायत की स्थिति में, सदस्य https://ivote.bigshareonline.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQ's") तथा i-vote e-voting module देख सकते हैं या आप ivote@bigshareonline.com पर मेल कर सकते हैं या 1800 22 54 22 पर संपर्क कर सकते हैं। सदस्य investors.relation@eiepl.in पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।
- च) चूंकि कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता डीमैट रूप में है, इसलिए सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।
- छ) निदेशक मंडल ने श्री आलोक जैन, श्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस 30369, सीओपी संख्या: 14828) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकें से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है और उन्होंने नियुक्त होने की अपनी इच्छा व्यक्त की है और वे उक्त उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहेंगे।
- ज) पोस्टल बैलट/ई-वोटिंग के परिणाम शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 तक घोषित किए जाएंगे। मतदान के परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.eiel.in, बिगशेयर पर https://ivote.bigshareonline.com पर अपलोड की जाएगी और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित की जाएगी। परिणाम एक साथ स्टॉक एक्सचेंजों को सुचित किए जाएंगे जहां कंपनी के शेयर सुचीबद्ध हैं।

एनवायरो इंफा इंजीनियर्स लिमिटेड के लिए

(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

इस्ता./-पीयुष जैन

डीआइएनः 10719854 **पता**ः ए—734, सुशांत लोक—1,

निपटारा किया जाएगा।

चकरपुर (७४), फर्रुखनगर, गुड़गांव, हरियाणा—122002, भारत

तारीखः 18.02.2025, स्थानः गुडगाँव

www.readwhere.com

दिनाक: 17.02.2025

स्थान: नई दिल्ली